



# राजस्थान

---

# पुलिस कांस्टेबल

भाग – 3

तार्किक योग्यता एवं कम्प्यूटर ज्ञान



# RAJASTHAN POLICE CONSTABLE

## CONTENTS

तार्किक योग्यता Verbal Reasoning		
1.	श्रृंखला	1
2.	सादृश्यता	8
3.	वर्गीकरण	15
4.	कूट-भाषा परीक्षण	20
5.	अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण	28
6.	दिशा और दूरी	35
7.	क्रम और रैंकिंग	43
8.	समय अनुक्रम परीक्षण	47
9.	घड़ी	51
10.	कैलेण्डर	58
11.	रक्त संबंध	62
12.	गणितीय संक्रियाएँ	69
13.	आव्यूह	73
14.	बैठक व्यवस्था	77
15.	अंकगणित तर्क	82
16.	न्याय निगमन	87
17.	वेन आरेख	94
Logical Reasoning		
18.	कथन और धारणाएँ	99
19.	कथन और निष्कर्ष	107
20.	कथन और तर्क	112
21.	कथन और कार्रवाई	120
22.	अभिकथन और कारण	128

## Non-Verbal Reasoning (Figure Based)

23.	आकृति श्रृंखला	134
24.	आकृति सादृश्य	139
25.	आकृति वर्गीकरण	144
26.	दर्पण एवं जल प्रतिबिम्ब	147
27.	आकृति निर्माण	152
28.	अपूर्ण आकृति को पूरा करना	155
29.	सन्निहित आकृतियाँ	161
30.	आकृतियों की गणना	166
31.	आँकड़ों का समूहन	176
32.	कागज मोड़ना एवं काटना	184
❖	कम्प्यूटर	190

## अंक गणित

1.	सरलीकरण
2.	घातांक
3.	बीजीय व्यंजक
4.	समीकरण
5.	गुणनखण्ड
6.	वर्ग और वर्गमूल
7.	घन और घनमूल
8.	श्रेणी (समान्तर, गुणोत्तर, हरात्मक)
9.	संख्या पद्धति



## श्रृंखला (Series)

श्रृंखला परीक्षण श्रेणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर यह ज्ञात करना पड़ता है कि यह श्रेणी क्रम/नियम का अनुसरण कर रही है।

इस परीक्षण के अन्तर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- (1) श्रृंखला
- (2) वर्णमाला श्रृंखला
- (3) श्रृंको/श्रृंकारों की बारम्बारता श्रृंखला

• श्रृंखला परीक्षण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

- (1) सबसे पहले पूरी श्रृंखला चलाने का प्रयास करते हैं।
- (2) यदि श्रृंखला न चले तो Break करके चलाते हैं।
- (3) सबसे अन्त में Alternate Series चलाते हैं।

1. श्रृंखला - इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों में श्रृंको की श्रृंखला दी जाती है। यह श्रृंखला जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि पर आधारित होती है।

**Type - 1** - श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना।  
इस श्रृंखला क्रम में किसी विशेष स्थान पर जाने वाले श्रृंको के स्थान पर कोई गलत श्रृंको संयोजित कर दिया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि उस नियम के अनुसार कौन-सा पद परिवर्तित नहीं हो रहा है, वही गलत पद है।


उदाहरण 1 - निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन-सी संख्या अनुपयुक्त है ?

76, 98, 126, 160, 200, 248, 298

- (A) 248                      (B) 200  
(C) 160                     (D) 298

उत्तर - (A)

व्याख्या - उपरोक्त श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मालूम होता है कि श्रृंखला का छठा पद अनुपयुक्त है क्योंकि प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या अपनी पहली संख्या से 6 श्रृंको अधिक है।



अतः 248 के स्थान पर 246 होगा।


उदाहरण 2- निम्नलिखित श्रृंखला में कौन-सी संख्या ऐसी है जो कि श्रृंखला में अनुपयुक्त है ?

5, 3, 6, 10, 9, 12, 17, 15, 18, 23

- (A) 6                              (B) 9  
(C) 12                             (D) 10

उत्तर - (D)

व्याख्या - उपरोक्त श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि श्रृंखला -2, +3, +5, -2, +3, +5 ..... के क्रम में घट एवं बढ़ रही है।



उपरोक्त श्रृंखला में श्रृंको '6' के बाद 11 आना चाहिए।

अतः श्रृंखला में अनुपयुक्त संख्या 10 है।

**Type - 2** - श्रृंखला को पूरा करना।

इसके अन्तर्गत दिए गए श्रृंखला क्रम में किसी विशेष स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाता है अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह (?) द्वारा निरूपित कर दिया जाता है, फिर अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस क्रम का पता लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर जाने वाली उपयुक्त संख्या का चयन करें।


उदाहरण 3 - श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन-सी संख्या आएगी ?

16, 23, 31, 40, 50, 61, ?

- (A) 81                              (B) 83  
(C) 77                             (D) 73

उत्तर - (D)

व्याख्या - उपरोक्त श्रृंखला का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि श्रृंखला +7, +8, +9, +10 ..... के क्रम में बढ़ रही है।



अतः प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ज्ञाने वाली उपयुक्त संख्या 73 होगी।


उदाहरण 4 - उपरोक्त श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी ?

5, 4, 15, 7, 23, 11, 29, 16, 33, ?

- (A) 11 (B) 22  
(C) 29 (D) 34

उत्तर - (B)

व्याख्या -



अतः प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ज्ञाने वाली उपयुक्त संख्या 22 होगी।

**Type - 3 - श्रेणी के नियम**

श्रेणी के नियम 2 प्रकार के होते हैं।

1. समांतर श्रेणी
2. गुणोत्तर श्रेणी

(1) समांतर श्रेणी - समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें लगातार दो पदों का अंतर समान होता है।

समांतर श्रेणी के किसी पद में से उसके पूर्व के पद को हटाने पर प्राप्त संख्या 'पदान्तर' कहलाती है।

यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो एवं पदान्तर d हो, तो समांतर श्रेणी होगी।

$$a, (a + d), (a + 2d), (a + 3d) \dots \dots \dots$$

अतः समांतर श्रेणी का n वाँ पद,  $T_n = a + (n-1)d$  (जहाँ, a प्रथम पद एवं d पदान्तर है)

उदाहरण 5 - श्रेणी 3, 5, 7, 9..... का 10 वाँ पद क्या होगा ?

- (A) 15 (B) 20  
(C) 12 (D) 21

उत्तर - (D)

व्याख्या - 10 वाँ पद

$$\begin{aligned}
 T_n &= a + (n-1)d \\
 T_{10} &= 3 + (10 - 1)2 \\
 T_{10} &= 3 + 18 \\
 T_{10} &= 21
 \end{aligned}$$

उदाहरण 6 - यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 पदान्तर 3 एवं अंतिम पद 80 हो, तो पदों की संख्या ज्ञात करें ?

- (A) 24 (B) 23  
(C) 26 (D) 29

उत्तर - (C)

व्याख्या -  $a = 5, d = 3, T_n = 80, n = ?$

$$\begin{aligned}
 T_n &= a + (n - 1)d \\
 80 &= 5 + (n - 1)3 \\
 (n - 1) &= \frac{80 - 5}{3} \\
 n - 1 &= 25 \\
 n &= 25 + 1 \\
 n &= 26
 \end{aligned}$$

(2) गुणोत्तर श्रेणी - ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अनुपात समान होता है, 'गुणोत्तर श्रेणी' कहलाती है।

इस अनुपात को गुणोत्तर श्रेणी का 'सार्वानुपात' कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का 'सार्वानुपात' किसी पद में उसके पूर्व पद से भाग देने पर प्राप्त होता है अर्थात्

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{t_3}{t_2} = \frac{t_4}{t_3} = \dots \dots \dots = \frac{t_n}{t_{n-1}}$$

**सार्वानुपात**

यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a एवं सार्वानुपात r हो, तो उस गुणोत्तर श्रेणी का n वाँ पद,

$$T_n = a r^{n-1}$$

उदाहरण 7- श्रेणी 3, 9, 27, 81 ..... का 6 वाँ पद कौन सा है ?

- (A) 729 (B) 243  
(C) 1681 (D) 1747

उत्तर - (A)

व्याख्या - प्रथम पद  $a = 3$

सार्वानुपात  $d = \frac{9}{3} = 3$

6 वाँ पद,  $T_6 = a.r^{n-1}$

$$\begin{aligned}
 &= 3.3^{6-1} \\
 &= 3 \times 3^5 \\
 &= 3 \times 243 = 729
 \end{aligned}$$

उदाहरण 8 - श्रेणी 7, 14, 28 ... का 10 वाँ पद कौन-सा होगा ?

- (A) 3216 (B) 2736  
(C) 2684 (D) 3584

उत्तर - (D)

व्याख्या - प्रथम पद  $a = 7$

$$\text{सार्वाङ्गपात } r = \frac{14}{7} = 2$$

$$\begin{aligned} 10 \text{ वाँ पद } T_{10} &= a \cdot r^{n-1} \\ &= 7 \times 2^{10-1} \\ &= 7 \times 2^9 \\ &= 7 \times 512 \\ &= 3584 \end{aligned}$$

(2) वर्णमाला श्रृंखला -

इसके अन्तर्गत दी गई श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला से सम्बन्धित अक्षरों की एक श्रृंखला दी जाती है, जिसमें एक या दो अक्षर लुप्त कर दिए जाते हैं, अथवा उस स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह (?) द्वारा निरूपित किया जाता है।


उदाहरण 9 - दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा ?

J      K      M      P      T      ?

- (A) X (B) W  
(C) Y (D) कोई नहीं

उत्तर - (C)

व्याख्या -




अतः प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर आने वाला उपयुक्त अक्षर Y होगा।

उदाहरण 10 - L7C, N9F, P12I, R16L, ? इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा ?

- (A) U210 (B) S21P  
(C) S200 (D) T210

उत्तर - (D)

व्याख्या -



अतः प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर उपयुक्त अंक-अक्षर समूह T210 होगा।

उदाहरण 11 - निम्न श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के स्थान पर क्या आएगा ?

ab\_\_baabc\_\_aabcb\_\_abcb\_\_

- (A) bcaaa (B) cbaa  
(C) abca (D) aacb

उत्तर - (B)

व्याख्या - खाली स्थान के दोनों ओर अक्षर 'b' प्रयुक्त हुआ है तथा उस श्रृंखला में आगे दो 'b' के बीच 'c' अक्षर प्रयुक्त हुआ है इसलिए श्रृंखला के शुरू में दो 'b' के बीच अक्षर c प्रयुक्त होगा।

अगले खाली स्थान के दोनों ओर c एवं a का प्रयोग हुआ है तथा श्रृंखला से ठीक पीछे देखने पर 'c' एवं 'a' के बीच अक्षर b का प्रयोग हुआ है।

अतः हम कह सकते हैं कि श्रृंखला abcba बनेगी।

अतः विकल्पानुसार, उत्तर cbaa होगा।

(3) अंकों/अक्षरों की बारम्बारता श्रृंखला -

इसके अन्तर्गत अंक/अक्षर एक निश्चित क्रमानुसार बार-बार आते हैं, इस प्रकार अंकों/अक्षरों की एक श्रृंखला बनती है जिसमें बीच के या अन्त के एक या दो अंक या अक्षर लुप्त कर दिए जाते हैं और अभ्यर्थियों को लुप्त अंक/अक्षर का पता लगाना होता है।

उदाहरण 12 - 02487503001024875030010

- (A) 2,4 (B) 0,1  
(C) 0,2 (D) 4,8

उत्तर - (A)

व्याख्या - दिए गए अंकों की श्रृंखला को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि 02487503001 बार-बार क्रम से आ रहा है।

अतः अगले दो अंक 2 व 4 होंगे।


**प्रश्न हल सहित**

Q. 1. 4, 10, 22, 46, ? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए ?

- (A) 56                      (B) 66  
(C) 76                      (D) 94

उत्तर- (D)

व्याख्या -




Q. 2. 87, 90, 84, 88, 81, ?, ?

- (A) 86,78                      (B) 86,88  
(C) 86,88                      (D) 85,93

उत्तर- (A)

व्याख्या-




अतः विकल्प (A) 86,78 सही होगा ।

Q. 3. निम्नलिखित में से कौनसी संख्या अनुक्रम में सही नहीं है - 3, 6, 10, 16, 21, 28

- (A) 10                      (B) 3  
(C) 16                      (D) 21

उत्तर- (C)

व्याख्या-




अतः विकल्प (C) 16 सही होगा ।

Q. 4. 2, 12, 36, 80, 150, ? लुप्त संख्या ज्ञात करें ?

- (A) 210                      (B) 258  
(C) 252                      (D) 194

उत्तर- (C)

व्याख्या -



अतः विकल्प (C) 252 सही होगा ।


Q. 5. निम्न में से कौनसी संख्या अनुक्रम में नहीं आती है ?

19, 28, 39, 52, 67, 84, 102

- (A) 84                      (B) 102  
(C) 67                      (D) 52

उत्तर- (B)

व्याख्या -




अतः विकल्प (B) 102 गलत संख्या होगी ।

Q. 6. BDFH, IKMO, PRTV, ? लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए ?

- (A) WYAC                      (B) WXYA  
(C) WXYZ                      (D) WYZA

उत्तर- (A)

व्याख्या -




अतः विकल्प (A) ठीक होगा ।

Q. 7. 4E, 8I, 13N, 19T, ? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए ?

- (A) 26U                      (B) 26A  
(C) 26Z                      (D) 25X

उत्तर- (B)

व्याख्या -




अतः विकल्प (B) सही होगा ।

Q. 8. IKMO, TVXZ, ? LMNO लुप्त संख्या ज्ञात करें ?

- (A) ABCD                      (B) CEGH  
(C) EGIK                      (D) GIKN

उत्तर- (A)

व्याख्या -



अतः विकल्प (A) सही होगा ।

Q. 9. ab\_\_dbc\_\_cda\_\_d\_bcab\_\_d

- (A) cdabac                      (B) cdaabc  
(C) adabac                      (D) dadabc

उत्तर- (A)

व्याख्या -


abcd/bcda/cdab/dabc/abcd

अतः विकल्प (A) ठीक होगा ।

Q. 10. 15, 30, 60, 120, ? लुप्त संख्या ज्ञात करें ?

- (A) 250                      (B) 245  
(C) 240                      (D) 260

उत्तर- (C)




अतः विकल्प (C) सही होगा ।

Q. 11. 120, 60, 30, 15, ? लुप्त संख्या ज्ञात करें ?

- (A) 7.5                      (B) 5.7  
(C) 3.0                      (D) 8.5

उत्तर- (A)

व्याख्या -




Q. 12. 4, 10, ? 82, 244, 730

- (A) 218                      (B) 28  
(C) 24                      (D) 77

उत्तर- (B)

व्याख्या -



Q. 13. 11, 17, 39, 85, ?

- (A) 133                      (B) 143  
(C) 153                      (D) 163

उत्तर- (D)

व्याख्या -

$$11$$

$$11 + (3^2 - 3) = 17$$

$$17 + (5^2 - 3) = 39$$

$$39 + (7^2 - 3) = 85$$

$$85 + (9^2 - 3) = \boxed{163}$$

Q. 14. 625, 625, 600, ?, 475, 875

- (A) 545                      (B) 700  
(C) 675                      (D) 725

उत्तर- (B)

व्याख्या -

$$625$$

$$625 + (0 \times 0) = 625$$

$$625 - (5 \times 5) = 625 - 25 = 600$$

$$600 + (10 \times 10) = 600 + 100 = \boxed{700}$$

$$700 - (15 \times 15) = 700 - 225 = 475$$

$$475 + (20 \times 20) = 475 + 400 = 875$$


Q. 15. 17, 43, 81, 131, ?

- (A) 375 (B) 468  
(C) 300 (D) 193

उत्तर- (D)

व्याख्या -

17, 43, 81, 131, ?



Q. 16. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?

- (A) 34 (B) 35  
(C) 33 (D) 36

उत्तर- (A)

व्याख्या -

यह फिबोनैकी श्रेणी है। प्रत्येक पद पिछले दो पदों का योग है।

उदाहरण के लिए, तीसरा पद (1) पहले पद (0) और दूसरे पद (1) = 0+1=1 का योग है।

फिर से, 9वाँ पद (21) 8वें पद (13) और 7वें पद (8) = 13+8=21 का योग है।

तो, श्रृंखला पद - जो 10वाँ पद होगा, 9वें और 8वें पदों का योग है: 13+21=34


Q. 17. 17, 36, 74, 150, ?, 606

- (A) 250 (B) 303  
(C) 300 (D) 302

उत्तर- (D)

व्याख्या -

17, 36, 74, 150, ?, 606



Q. 18. SAB, ?, QCD, PDD, OEF, NFF

- (A) CBT (B) ABR  
(C) BCT (D) RBB

उत्तर- (D)

व्याख्या -

प्रत्येक समूह में पहला अक्षर उल्टे वर्णानुक्रम में है अर्थात् SRQPON, मध्य अक्षर वर्णमाला के क्रम में है यानी ABCDEF और अंतिम अक्षर में जोड़े, BB, DD और FF हैं।

अतः Option (D) सही होगा।


Q. 19. G2X, J4V, M8T, ?, S32P

- (A) N64S (B) P16R  
(C) Q16R (D) P8S

उत्तर- (B)

व्याख्या -

G2X J4V M8T ? S32P



Q. (20-21) के लिए निर्देश - निम्नलिखित प्रत्येक श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है। गलत संख्या ज्ञात कीजिए।

Q. 20. 10, 5, 19, 12, 39, 26, 73, 54


- (A) 52 (B) 19  
(C) 39 (D) 26

उत्तर- (C)


व्याख्या -

10, 5, 19, 12, 39, 26, 73, 54

इस श्रृंखला में दो श्रेणियाँ हैं,



यह गलत है यहाँ 18 आयेगा, इसलिए 39 की जगह 37 आयेगा जिसे दो संख्या के बीच के अंतर इस प्रकार होगा- +9, +18, +36 .....



Q. 21. 3, 12, 8, 19, 13, 32, 18, 42, 23, 52


- (A) 12 (B) 19  
(C) 42 (D) 32

उत्तर- (B)

व्याख्या -


इस श्रृंखला में दो श्रेणियाँ हैं।

I 3, 8, 13, 18, 23



श्रेणी - I सही क्रम में है।

II 12, 19, 32, 42, 52



अंतिम दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 है इसलिए यदि 19 के स्थान पर 22 आता है तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर +10 हो जायेगा।

## सादृश्यता (ANALOGY)

किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से संबंध या समानता को सादृश्यता या समरूपता कहा जाता है।

सादृश्यता के अन्तर्गत सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।

सादृश्यता के प्रकार

1. हिन्दी शब्द सादृश्यता
2. अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता
3. अंग्रेजी शब्द सादृश्यता
4. संख्या सादृश्यता

### प्रकार 1 - हिन्दी शब्द सादृश्यता

इसके अन्तर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए हिन्दी शब्दों के संबंध पर विचार करते हुए दिए गए उत्तर विकल्पों में से एक ऐसे शब्द को ज्ञात करना होता है, जिसका संबंध दिए गए शब्दों या तीसरे शब्द के साथ स्थापित हो सके।

- (i) समरूप शब्द ज्ञात करना - इसके अन्तर्गत पूछे गए प्रश्नों में दिए गए दो शब्दों के संबंध पर विचार करते हुए उत्तर विकल्पों में से ऐसे शब्द को ज्ञात करना होता है, जिसका संबंध दिए गए तीसरे शब्द के साथ स्थापित होता है।

उदाहरण 1 - दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए।

नदी : घास : महासागर : ?

- |            |            |
|------------|------------|
| (A) प्रवाह | (B) तालाब  |
| (C) बाँध   | (D) समुद्र |

उत्तर - (A) प्रवाह

व्याख्या- जिस प्रकार नदी के पानी से घास उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महासागर के पानी से प्रवाह उत्पन्न होता है।

उदाहरण 2 - जिस प्रकार कोलम्बो, श्रीलंका से संबंधित है, उसी प्रकार काठमाण्डू किससे संबंधित है?

- |            |           |
|------------|-----------|
| (A) तिब्बत | (B) भारत  |
| (C) भूटान  | (D) नेपाल |

उत्तर (D) नेपाल

व्याख्या- जिस प्रकार कोलम्बो, श्रीलंका की राजधानी है, उसी प्रकार, काठमाण्डू नेपाल की राजधानी है।

- (ii) समरूप युग्म ज्ञात करना - इसके अन्तर्गत जाने वाले प्रश्नों में दो शब्द दिए होते हैं, जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी होता है।

उदाहरण 3 - दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द - युग्म को चुनिए।

उद्देशिका : संविधान :: ? : ?

- |                          |
|--------------------------|
| (A) शब्द : शब्दकोश       |
| (B) विषय-वस्तु : पत्रिका |
| (C) स्पष्टीकरण : कविता   |
| (D) प्रस्तावना : पुस्तक  |

उत्तर (D)

व्याख्या- जिस प्रकार, संविधान की उद्देशिका होती है, ठीक उसी प्रकार पुस्तक की प्रस्तावना होती है।

(iii) शब्दों के समरूप शब्द तथा समरूप शब्दों के लिए विशेष वर्ग चुनना

इसके अन्तर्गत जाने वाले प्रश्नों में कुछ शब्द दिए होते हैं। हमें दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनना होता है जो ठीक वैसा ही हो जैसे की आरम्भ में दिए गए शब्द है और वह शब्द ज्ञात करना होता है जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच विशेषता दर्शाता है।

उदाहरण 4 - कौन वैसा ही है जैसे - भूकम्प, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट है ?

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (A) वैश्विक ऊष्मा | (B) बाढ़           |
| (C) दुर्घटनाएँ    | (D) परमाणु विस्फोट |

उत्तर (B) बाढ़

व्याख्या- जिस प्रकार भूकम्प, चक्रवात एवं ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक आपदाएँ हैं। उसी प्रकार बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है।

उदाहरण 5 - नीचे तीन शब्द दिए हैं, जिनमें कुछ सामान्य विशेषता है, सही विकल्प को चुनिए।

साँप, छिपकली, मगरमच्छ

- |               |              |
|---------------|--------------|
| (A) सरीसृप    | (B) स्तनधारी |
| (C) सर्वाधारी | (D) हिरण     |

उत्तर (A)

व्याख्या- शॉप, छिपकली और मगरमच्छ तीनों शरीरूप हैं।

उदाहरण 6 - वह विकल्प ज्ञात कीजिए, जिसमें वही संबंध हो, जो नीचे दिए गए तीनों शब्दों में है।

राजा, रानी, महल

- (A) कबूतर, चिड़िया, श्रौणधालय  
 (B) बकश, बकरी, किला  
 (C) भौंरा, मकड़ी, जल  
 (D) शेर, शेरनी, गुफा

उत्तर (D)

व्याख्या- जिस प्रकार, राजा - रानी दोनों साथ में महल में निवास करते हैं, उसी प्रकार शेर और शेरनी दोनों साथ में गुफा में निवास करते हैं।

(iv) दोहरी शमरूपता - इसके अन्तर्गत प्रश्न में चिन्ह (::) के बाईं एवं दाईं ओर दो - दो शब्द दिए गए होते हैं। दोनों ओर के शब्दों में एक-एक शब्द लुप्त रहता है।

लुप्त शब्द को नीचे दिए विकल्पों में से ज्ञात करना होता है।

उदाहरण 7 - निम्न प्रश्न में लुप्त शब्द को नीचे दिए गए विकल्प में से ज्ञात करें

A : भद्रा :: शान्ति : B

- (A) A - सुन्दर, B - युद्ध  
 (B) A - मित्रता, B - शेर  
 (C) A - ईमानदारी, B - शक्ति  
 (D) A - संख्या, B - हडताल

उत्तर (A)

व्याख्या- जिस प्रकार, सुन्दर और भद्रा एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। उसी प्रकार, शान्ति और युद्ध भी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं।

प्रकार - 2 अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता

इसके अन्तर्गत आने वाले प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या अक्षर समूहों पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रथम दो अक्षर - समूहों के संबंध को ज्ञात करके इसी आधार पर तीसरे अक्षर - समूह के लिए सही उत्तर को विकल्पों में से ज्ञात करना होता है।

अंग्रेजी अक्षर तथा उनकी संगत संख्याएँ -

अंग्रेजी अक्षर	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
संगत संख्याएँ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अंग्रेजी अक्षर के स्वर और व्यंजन अक्षर -

स्वर अक्षर	A, E, I, O, U
व्यंजन अक्षर	B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

अंग्रेजी अक्षर के स्वर और व्यंजन अक्षर -

स्वर अक्षर	A, E, I, O, U
व्यंजन अक्षर	B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

उदाहरण - 8

CHAIR : RIAHC :: TABLE : ?

- (A) BLAET (B) ETABL  
 (C) LETAB (D) ELBAT

उत्तर (D)

व्याख्या- जिस प्रकार

CHAIR → RIAHC

उसी प्रकार

TABLE → ELBAT

उदाहरण - 9


HORSE : SERHO :: CURSE : ?

- (A) RCUES (B) SECRU  
 (C) SERCU (D) ERCUS


उत्तर (C)

व्याख्या-

जिस प्रकार



उसी प्रकार



उदाहरण - 10

EGH : IJK :: NPQ : ?

- (A) PRS (B) RSU  
 (C) RTU (D) RST

उत्तर (D)

व्याख्या-

जिस प्रकार

E    G    H  
 ↓    ↓    ↓  
 +4   +3   +3  
 ↓    ↓    ↓  
 I    J    K

उसी प्रकार

N    P    Q  
 ↓    ↓    ↓  
 +4   +3   +3  
 ↓    ↓    ↓  
 R    S    T

**प्रकार - 3 श्रृंखला शब्द सादृश्यता**

इसके श्रुतगत जाने वाले प्रश्न श्रृंखला शब्दों पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रथम दो शब्दों के संबंधों को ज्ञात करके इसी आधार पर तीसरे शब्द के लिए सही उत्तर विकल्पों में से ज्ञात करते हैं।

(i) संबंधित शब्द ज्ञात करना

उदाहरण - 11 - निम्न प्रश्न में उक्त विकल्प का चयन करें, जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है ?

Shallow : Profound :: Synonym : ?

- (A) Context                      (B) Antonym  
(C) Meaning                    (D) Content

उत्तर (B)

व्याख्या- जिस प्रकार Shallow का विपरीतार्थक शब्द Profound होता है, उसी प्रकार Synonym का विपरीतार्थक शब्द Antonym है।

(ii) शब्द युग्म के समरूप शब्द युग्म ज्ञात करना

उदाहरण 12 - निम्नलिखित में से शब्दों का कौन-सा युग्म वैसा ही संबंध दर्शाता है जिस प्रकार का संबंध Fan : Heat के बीच है ?

- (A) Water : Drink  
(B) Food : Hunger  
(C) Light : Night  
(D) Air : Breath

उत्तर (B)

व्याख्या- जब गर्मी (Heat) होती है, तब पंखा (Fan) चलाया जाता है, उसी प्रकार भूख (Hunger) लगने पर भोजन (Food) किया जाता है।

**प्रकार - 4 - संख्या सादृश्यता**

इसके श्रुतगत जाने वाले प्रश्नों में संख्याओं के क्रम, संख्याओं के वर्गों के क्रम, श्रुतगत संख्याओं के क्रम आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे शब्दों में इसके श्रुतगत पूछे जाने वाले प्रश्न गणितीय संक्रियाओं पर आधारित होते हैं।

उदाहरण 13 - उक्त विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद, पहले पद से संबंधित है ?

23 : 69 :: 27 : ?

- (A) 91                              (B) 73  
(C) 81                              (D) 89

उत्तर (C)

व्याख्या- जिस प्रकार  $23 \times 3 = 69$

उसी प्रकार  $27 \times 3 = 81$

उदाहरण 14 - दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए ?

8 : 32 :: 6 : ?

- (A) 31                              (B) 22  
(C) 18                              (D) 21

उत्तर (C)

व्याख्या- जिस प्रकार  $8^2 = 64$

$64 \div 2 = 32$

उसी प्रकार  $6^2 = 36$

$36 \div 2 = 18$

उदाहरण 15 - दिए गए विकल्पों में से उक्त विकल्प को ज्ञात कीजिए जो 10 : 13 : 16 के समान है ?

- (A) 8 : 10 : 15                      (B) 13 : 16 : 19  
(C) 23 : 29 : 23                    (D) 10 : 16 : 23

उत्तर (B)

व्याख्या- जिस प्रकार

$\frac{10}{+3} : \frac{13}{+3} : 16$

उसी प्रकार

$\frac{13}{+3} : \frac{16}{+3} : 19$

### प्रश्न हल सहित

Q.1 जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है ?

- (A) खेल (B) कप्तान  
(C) टीम (D) खेलकूद

उत्तर (C)

व्याख्या- जिस प्रकार, सैनिक सेना का एक भाग होता है, उसी प्रकार, खिलाड़ी टीम का एक भाग होता है।

Q.2 रक्त जैसे शिरा से संबंधित है वैसे ही तेल किससे संबंधित है ?

- (A) कार (B) पाइपलाइन  
(C) इंजन (D) पेट्रोल

उत्तर (B)

व्याख्या- जिस प्रकार, रक्त शिरा में बहता है, उसी प्रकार तेल, पाइपलाइन में बहता है।

Q.3 जिस प्रकार लाल का संबंध रूकना से है, उसी प्रकार हरा का संबंध किससे है ?

- (A) पेन्ट (B) रंग  
(C) चलना (D) दिया

उत्तर (C)

व्याख्या- जिस प्रकार लाल रंग का प्रयोग वाहन को रोकने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार हरे रंग का प्रयोग वाहन के चलाने या जाने के लिए किया जाता है।

Q.4 दिवस का रात्रि से वही संबंध है जो गोधूलिवेला का .....से है ?

- (A) प्रातः काल (B) ऊषाकाल  
(C) मध्याह्न (D) सांयकाल

उत्तर (B)

व्याख्या- जिस प्रकार दिवस का विलोम रात्रि होता है, उसी प्रकार, गोधूलिवेला का विलोम ऊषाकाल होता है।

Q.5 जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है, उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है ?

- (A) मीटर (B) मिलीमीटर  
(C) सेंटीमीटर (D) डेसीमीटर

उत्तर (B)

व्याख्या- जिस प्रकार जल का सबसे बड़ा संयुक्त स्रोत महासागर है, जबकि सबसे छोटा स्रोत तालाब है, उसी प्रकार किलोमीटर का सबसे छोटा स्रोत मिलीमीटर होगा।

निर्देश (Q.6 से Q.13) निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए।

Q.6 चौड़ा : संकीर्ण :: पैना : ?

- (A) धारहीन (B) नुकीला  
(C) चाकू (D) खुरदरा

उत्तर (A)

व्याख्या- जिस प्रकार, चौड़ा का विपरीत संकीर्ण है उसी प्रकार, पैना का विपरीत धारहीन है।

Q.7 प्रतिरोध : ओम :: विद्युतघात : ?

- (A) फ़ैराडे (B) एम्पीयर  
(C) रेडियन (D) वोल्ट

उत्तर (B)

व्याख्या- जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ठीक उसी प्रकार, विद्युतघात का मात्रक एम्पीयर है।

Q.8 लखनऊ : उत्तर प्रदेश :: राँची : ?

- (A) झारखण्ड (B) ओडिशा  
(C) उत्तराखण्ड (D) छत्तीसगढ़

उत्तर (A)

व्याख्या- जिस प्रकार, लखनऊ, उत्तरप्रदेश राज्य की राजधानी है, उसी प्रकार राँची झारखण्ड राज्य की राजधानी है।

Q.9 बर्फ : ठण्डक :: पृथ्वी : ?

- (A) वजन (B) जंगल  
(C) गुरुत्वाकर्षण (D) समुद्र

उत्तर (C)

व्याख्या- जिस प्रकार, बर्फ में ठण्डक होती है, उसी प्रकार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है।

Q.10 रेशमकीट : रेशम :: नाग : ?

- (A) विषहर (B) विष  
(C) मृत्यु (D) मरन

उत्तर (B)

व्याख्या- जिस प्रकार, रेशमकीट से रेशम प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार, नाग से विष प्राप्त किया जाता है ।

Q.11 शरीर : कंकाल :: ? : व्याकरण

- (A) भाषा (B) अर्थ  
(C) विद्यालय (D) शिक्षक

उत्तर (A)

व्याख्या- जिस प्रकार, शरीर का मुख्य आधार कंकाल है, उसी प्रकार भाषा का मुख्य आधार व्याकरण है ।

Q.12 मैशथन : दौड़ :: शीतनिद्रा : ?

- (A) सर्दी (B) भालू  
(C) स्वप्न (D) निद्रा

उत्तर (D)

व्याख्या- जिस प्रकार, मैशथन एक प्रकार की दौड़ है, उसी प्रकार, शीतनिद्रा एक प्रकार की निद्रा है ।

Q.13 पुठुष : जीवनी :: राष्ट्र : ?

- (A) भूगोल (B) इतिहास  
(C) नेता (D) जनता

उत्तर (B)

व्याख्या- जिस प्रकार, किसी पुठुष के जीवन की कहानी, जीवनी होती है, उसी प्रकार, किसी राष्ट्र की कहानी, इतिहास होती है ।

(Q.14 से Q.15) निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुनें जो पहले युग्म के शब्दों की भाँति आपस में संबंधित हो ।

Q. 14 तीर : धनुष :: ?

- (A) फुटबॉल : हाथ  
(B) शलाक : चाकू  
(C) गोली : बंदूक  
(D) घुड़ौँ : पानी

उत्तर (C)

व्याख्या- जिस प्रकार तीर चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार गोली चलाने के लिए बंदूक का प्रयोग किया जाता है ।

Q.15 बुकर पुरस्कार : साहित्य :: ?

- (A) ब्रेमी पुरस्कार : पत्रकारिता  
(B) पुलित्जर पुरस्कार : पत्रकारिता  
(C) ग्लोबल पुरस्कार : फिल्म  
(D) ऑस्कर पुरस्कार : विज्ञान

उत्तर (B)

व्याख्या- जिस प्रकार बुकर पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, उसी प्रकार पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ।

Q.16 जिस प्रकार ERID संबंधित है DIRE से, उसी प्रकार RIPE संबंधित है ?

- (A) EPIR (B) REPI  
(C) EPRI (D) PEIR

उत्तर (A)

व्याख्या- अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है

RIPE = EPIR


Q.17 जिस प्रकार DRIVE का संबंध ESJWF से है, उसी प्रकार FIGHT का संबंध किससे है ?

- (A) EHFSG (B) GJHIU  
(C) GJFHU (D) EJFGU


उत्तर (B)

व्याख्या-

जिस प्रकार



उसी प्रकार




Q.18 जिस प्रकार WT का संबंध QN से है, उसी प्रकार FC का संबंध किससे है ?

- (A) KH (B) MJ  
(C) GJ (D) ZW

उत्तर (D)

व्याख्या-



Q.19 ROUGH का UHROG से संबंध है और PLUCK का UKPLC से संबंध है तो ANCHOR का संबंध ..... से होगा ?

- (A) NHRACO
- (B) HORANC
- (C) ACONHR
- (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

उत्तर (D)


व्याख्या- निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें छः अक्षर हैं ।

Q.20 EK : MS :: AG : ?

- (A) IM
- (B) IJ
- (C) IO
- (D) JP

उत्तर (C)

व्याख्या-




Q.21 NEUROTIC:TICRONEU::PSYCHOTIC:?


- (A) TICCOHPSY
- (B) TICCOCHPSY
- (C) TICCHOPSY
- (D) TICHCOPSY

उत्तर (C)

व्याख्या- जिस प्रकार



उसी प्रकार




Q.22 AZBY : CXDW :: EVFU : ?


- (A) GHTS
- (B) TGBH
- (C) GTHS
- (D) GSTH

उत्तर (C)

व्याख्या- जिस प्रकार



उसी प्रकार




Q.23 BOTTLE : CQWXQK :: FILLED : ?


- (A) GKOPJJ
- (B) GKOPJK
- (C) GKPOJJ
- (D) GHOPJJ

उत्तर (A)

व्याख्या- जिस प्रकार



उत्ती प्रकार



Q.24 Cricket : Pitch :: Skating : ?

- (A) Rink (B) Ground  
(C) Cowet (D) Ring

उत्तर (A)

व्याख्या- जित प्रकार Cricket, pitch पर खेला जाता है उत्ती प्रकार Skating, Rink में की जाती है ।

Q.25 Oxygen : Burn :: Carbon dioxide : ?

- (A) Isolate (B) Foam  
(C) Extinguishes (D) Explode

उत्तर (C)

व्याख्या- जित प्रकार, Oxygen, Burn में सहायक है । उत्ती प्रकार, Carbon dioxide, Extinguish में सहायक है ।

Q.26 17 : 153 :: 24 : ?

- (A) 213 (B) 216  
(C) 144 (D) 122

उत्तर (B)

व्याख्या- जित प्रकार ,  $17 \times 9 = 153$

उत्ती प्रकार,  $24 \times 9 = 216$

Q.27 64 : 513 :: 144 : ?

- (A) 1727 (B) 1729  
(C) 1728 (D) 1730

उत्तर (B)

व्याख्या- प्रथम युग्म

$$8^2 = 64$$

$$8^3 + 1 = 512 + 1 = 513$$

इत्ती प्रकार

$$(12)^2 = 144$$


$$12^3 + 1 = 1728 + 1 = 1729$$

Q.28 63 : 36 :: ? : ?


- (A) 94:49 (B) 35:54  
(C) 47:72 (D) 73:39

उत्तर (A)

व्याख्या- जित प्रकार



उत्ती प्रकार



निम्न प्रश्नों से उक्त संख्या समुच्चय को चुनिए, जो प्रश्न में दी गई संख्या समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है ।

Q.29 (12,20,28)

- (A) (3,15,18)  
(B) (18,27,72)  
(C) (18,30,42)  
(D) (7,14,28)

उत्तर (C)

व्याख्या- जित प्रकार



उत्ती प्रकार



Q.30 (1050,210,42)

- (A) 95,19,3 (B) 60,12,2  
(C) 125,25,6 (D) 75,15,3

उत्तर (D)

व्याख्या-

$$1050, (1050 \div 5) ; (1050 \div 25) =$$

$$1050, 210, 42$$

उत्ती प्रकार

$$75, (75 \div 5), (75 \div 25) = 75, 15, 3$$